

Roll No.

172

कक्षा 11 वीं परीक्षा, 2021-22

[M-2913-B]

CHEMISTRY

रसायन शास्त्र

(Hindi & English Version)

[Total No. of Questions: 18]

[Total No. of Printed Pages: 08]

[Time: 03 Hours]

[Maximum Marks: 70]

निर्देश -

- (1) प्रश्न नं. 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कुल अंक 20 हैं। प्रत्येक पर 5 अंक आवधित हैं।
- (2) प्रश्न नं. 5 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का (शब्द सीमा 30 शब्द)
- (3) प्रश्न नं. 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का (शब्द सीमा 75 शब्द)
- (4) प्रश्न नं. 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का (शब्द सीमा 120 शब्द)
- (5) प्रश्न नं. 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का (शब्द सीमा 150 शब्द)
- (6) प्रश्न नं. 5 से 18 तक आंतरिक विकल्प दिये गये हैं।

Instructions-

- (I) All questions are compulsory. Each question carries 5 marks.
- (II) Ques. No. 1 to 4 are objective types questions, carry total 20 marks.
- (III) Ques. No. 5 to 7 each question carries 2 marks (word limit 30 words)
- (IV) Ques. No. 8 to 10 each question carries 3 marks (word limit 75 words)
- (V) Ques. No. 11 to 15 each question carries 4 marks (word limit 120 words)
- (VI) Ques. No. 16 to 18 each question carries 5 marks (word limit 150 words)
- (VII) Internal choice is given in every question from question No. 5 to 18.

प.१ राष्ट्रीयिकात्मा का शयन कोणिए -

$$(5 \times 1 = 5)$$

(अ) बजीन का अपूर्व सूत्र C₆H₆ R₁ सका नुलानुपाती सूत्र होगा -

- | | |
|--|---------------------|
| (i) C_6H_{12} | (ii) $C_{12}H_{12}$ |
| (iii) C_2H_2 | (iv) CH |
| इन तत्वों में से किसका आकार (परमाणु) बिज्ञ | |
| (i) Al | (ii) Al^- |
| (iii) Al^{2+} | (iv) Al^{3+} |

(स) मानव रुधिर का pH मान होता है-

(d) CH_3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था है -

(इ) एन्कान का सामान्य सूत्र है -

- (i) C_nH_{2n} (ii) C_nH_{2n-2}
 (iii) C_nH_{2n} (iv) C_nH_{2n-2}

Choose the correct answer -

(a) Formula of Benzene is C_6H_6 , its empirical formula will be -

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (i) C_6H_{12}
(iii) C_6H_6 | (ii) $C_{12}H_{12}$
(iv) CH |
|-----------------------------------|----------------------------------|

(b) Which of the following have smaller size (atomic radii)?

(c) pH value of Human blood is -

(d) Hybridized state of carbon in CH_3Cl is -

- (i) sp (ii) sp^2
 (iii) sp^3 (iv) sp^3d

(e) The general formula of Alkane is -

- | | |
|--|--|
| (i) C_nH_{2n}
(iii) C_nH_{2n-2} | (ii) C_nH_{2n+2}
(iv) C_nH_{2n-1} |
|--|--|



प्र२ वित्त रसायन की पृष्ठी दीजिए - (5x1=5)

- (अ) उष्णागतिक तापकांप का SI मात्रक है। (केल्विन / फैरेनहाइट)
- (ब) यदि $n = 3$ हो, तो 'T' के मान होगा (1.2.3 / 0.1.2)
- (स) बम कैलोरीमीटर द्वारा का मापन होता है। (आनतरिक ऊर्जा / अन्तर्विद्युतीय)
- (द) भारी जल का सूत्र है। (D_2O / H_2O)
- (इ) शार धातु रो सम्बन्धित है। (s-ब्लॉक / p-ब्लॉक)

Fill in the blanks -

- (a) SI unit of thermodynamic temperature is (Kelvin / Fahrenheit)
- (b) If $n = 3$, then value of 'T' will be (1. 2, 3 / 0, 1, 2)
- (c) By Bomb calorimeter we measure (internal energy / enthalpy)
- (d) Formula of heavy water is (D_2O / H_2O)
- (e) Alkali metal is related to (s-block / p-block)

प्र३ राहीं जोड़ी बनाइये - (5x1=5)

- | 'अ' | 'ब' |
|------------------------------|-------------|
| (i) शुद्ध जल की मोललता | (a) वर्ग 2 |
| (ii) भारी जल का अणुभार | (b) वर्ग 13 |
| (iii) रावांधिक जल योजन ऊर्जा | (c) 55.5 |
| (iv) s - ब्लॉक | (d) 20 |
| (v) p - ब्लॉक | (e) Li |

Match the columns-

- | (A) | (B) |
|--------------------------------|--------------|
| (i) Molality of pure water | (a) group 2 |
| (ii) Molar mass of heavy water | (b) group 13 |
| (iii) Highest hydration energy | (c) 55.5 |
| (iv) s - Block | (d) 20 |
| (v) p - Block | (e) Li |

प्र४ एक शब्द / एक वाक्य में उत्तर दीजिए- (5x1=5)

- (i) मोल अंश की परिमापा लिखिए।
- (ii) लुईस क्षार व लुईस अम्ल का एक, एक उदाहरण लिखिए।

- (iii) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ अणु में उपस्थित सिग्मा (σ) व पाई (π) बंध की संख्या लिखिए।
 (iv) एल्कीन व एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए।
 (v) आर्टिलोम व एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए।

Answer in one word sentence -

- (i) Define mole fraction.
 (ii) Write the example each of Lewis base and Lewis acid.
 (iii) Write the number of sigma (σ) and pi (π) bonds present in $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ molecule.
 (iv) Write the general formula of Alkene and Alkyne.
 (v) Write the chemical formula of iodoform and acetic acid.

प्र 5 पाउली का अधरजन सेद्धात लिखिए। (2)

Write Pauli Exclusion principle.

अथवा / OR

नियोन व फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक दिन्यास लिखिए।

Write electronic configuration of Neon and Phosphorus.

प्र 6 वर्ग 13 में उपस्थित तत्त्वों के नाम लिखिए। (2)

Write the names of elements present in Group - 13

अथवा / OR

शृंखलन की परिभाषा लिखिए।

Define catenation.

प्र 7 बेन्जोनॉइड की परिभाषा लिखिए। (2)

Define Benzonoid.

अथवा

ब्यूट-2-ईन के समपक्ष व विपक्ष ज्यामितीय समावयवी बनाइये।

Draw Cis and Trans geometrical isomers of But-2-ene.

प्र 8 सीमान्त अभिकर्मक किसे कहते हैं? (3)

What is limiting reagent.

अथवा

निम्न के माल इयमान शात कीजियं -

- (i) CH_4 (ii) NH_3 (iii) NaCl

Calculate the molar mass of the following-

- (i) CH_4 (ii) NH_3 (iii) NaCl

प्र१९ दुष्ट का नियम लिखिए व उदाहरण दीजिये।

(3)

State Hund's rule with example.

अथवा / OR

क्षेत्र क्षेत्र में तीन अतर लिखिए।

Write three differences between orbit and orbital.

प्र१० आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने वर्ग व आवर्त हैं? (3)

Write Modern Periodic law. In modern periodic table how many groups and periods are there?

अथवा / OR

वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में उपरिथित तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

Write the name, atomic number and electronic configuration of element present in third period in group 17.

प्र११ एक ली वर्ग में उपरिथित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? (4)
(समझाइय)

Why are the physical and chemical properties of elements present in same group are similar? Explain.

अथवा / OR

s – ब्लॉक व p – ब्लॉक के तत्वों में चार अतर लिखिए।

Write four differences between s – block and p – block elements.

प्र१२ भौतिक प्रक्रमा में साम्यावस्था के सामान्य चार अभिलक्षण लिखिए। (4)

Write any four characteristics of a physical process in equilibrium.

अथवा / OR

ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत उचित उदाहरण द्वारा समझाइये तथा संयुग्मी अम्ल – क्षारक युग्म को स्पष्ट कीजियं।

State Bronsted Lowry acid and base concept with example and also clarify conjugate acid and base pair.

प्र.13 हाइड्रोजन के मात्राचालिकों का नाम, प्रतीक एवं उनमें सुप्रसिद्ध इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन व न्यूट्रोन की संख्या लिखिए। (4)

Write the isotopes of Hydrogen, their name, symbol and also write number of electrons, protons, and neutrons present in it.

अथवा/OR

जल की अस्थायी व स्थायी कल्पना का क्या कारण है?

What are the reasons of temporary and permanent hardness of water?

प्र.14 क्षार धातुओं एवं श्वारीय मृदा धातुओं की तुलना निम्न विटुआ पर करें - (4)

- (i) ग्रामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- (ii) ऑक्सीफरण अवधि
- (iii) ऑक्साइड के प्रकार
- (iv) हाइड्रोक्साइड की विलयता

Compare the alkali metals and alkaline earth metals on the following points -

- (i) General electronic configuration
- (ii) Oxidation state
- (iii) Types of oxide
- (iv) Solubility of Hydroxide

अथवा/OR

क्या होता है जब (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) -




- (i) मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है।
- (ii) सोडियम धातु का जल में डाला जाता है।

What happens when (write only chemical equation) -

- (i) Magnesium is burnt in air
- (ii) Sodium is added in water

प्र.15 निम्न अभिक्रियाओं का पूर्ण कर - (4)

Complete the following reactions -



अथवा / OR

इथाइन की सरचना संकरण के आधार पर लिखाइये।

Explain the structure of Ethyne on the basis of Hybridization.

प्र 16 निम्न की परिभाषा लिखिए - (5)

- (i) निकाय
- (ii) बद निकाय
- (iii) विलगित निकाय
- (iv) एण्टोपी
- (v) रुद्धोष निकाय

Define the following -

- (i) System
- (ii) Closed system
- (iii) Isolated system
- (iv) Entropy
- (v) Adiabatic system

अथवा / OR

निम्न की परिभाषा लिखिए -

- (i) आन्तरिक ऊष्मा
- (ii) दहन ऊष्मा

Define the following -

- (i) Internal energy and
- (ii) Heat of combustion

प्र 17 हीरा व ग्रेफाइट की सरचना व गुणों में निहित भिन्नता लिखिए। (कोई पाँच) (5)

Write the inherent differences between Diamond and Graphite on the basis of structure and properties. (Any five)

अथवा / OR

कारण लिखाइये -





- (i) ग्रेफाइट शुष्क रन्हक के रूप में प्रयुक्त होता है।
- (ii) वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है।

Give reasons -






- (i) Graphite is used as dry lubricant.
- (ii) Aluminium alloy is used for making aeroplanes.

प्र 18 नेमालोखित के IUPAC नाम लिखिए -

(5)



Write the IUPAC name of the following -



अथवा / OR

प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं? इनके प्रकारों को समझाइए।

What is inductive effect? Explain its types.